



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 01 पटना, बुधवार, 11 पौष 1935 (श0)
1 जनवरी 2014 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-7
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-8
पूरक	---
पूरक-क	9-9

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर 2013

सं० एल/एच०जी०-1509/2010-11577—बिहार लोक सेवा आयोग के 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी (गृह विभाग के अन्तर्गत) के जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित-09 (नौ) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन जिला समादेष्टा (आरक्षी उपाधीक्षक के समकक्ष) के रिक्त पद के विरुद्ध योगदान की तिथि से वेतनमान ₹9300-34800, पी०बी०-2, ग्रेड पे-5400 (अनुमान्य भत्तों के साथ) में औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
1	रश्मि पिता—श्री शशिभूषण कुमार, चाणक्यपुरी, राजा बजार, थाना—शास्त्रीनगर, पो०—भेटनरी कॉलेज, जिला—पटना (बिहार), पिन कोड—800014	पटना	111	अनारक्षित कोटि—01
2	मो० फैज आलम पिता—अब्दुल हकीम, ग्राम—कोईरियाखास, थाना—डाकघर—पारु, जिला—मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड—843112	मुजफ्फरपुर	115	अनारक्षित कोटि—01
3	श्री रितेश कुमार पाण्डेय पिता—श्री रश्मिकांत पाण्डेय, एस०एच०16/64, बी० 4 ए० कादिपुर शिवपुर, वाराणसी (उ०प्र०) पिन कोड—221003	वाराणसी (उ०प्र०)	123	अनारक्षित कोटि—01
4	श्री संजय कुमार पिता—श्री रामलोचन प्रसाद सिंह, सामुदायिक भवन से सटे पूरब, बाग दुल्हन, हाजीपुर जिला—वैशाली (बिहार), पिन कोड—844101	वैशाली	124	पिछड़ा वर्ग—(05)
5	श्री अशोक कुमार प्रसाद पिता—स्व० केदार नाथ प्रसाद, ग्राम—सरैया, डाकघर—बिलौटी, थाना—शाहपुर, जिला—भोजपुर (बिहार), पिन कोड—802154	भोजपुर	171	अत्यंत पिछड़ा वर्ग—(04)
6	श्री हर्षवर्धन पिता—श्री शम्भुनाथ भगत, ग्राम—भवानीपुर, पो०—भटौना, थाना—तुर्की, कुढ़नी जिला—मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड—843113	मुजफ्फरपुर	187	अत्यंत पिछड़ा वर्ग—(04)

क्रमांक	नाम एवं पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
7	ममता कुमारी पिता—श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम—महरूआ, थाना—भेल्दी, पो०—गरखा, जिला—सारण (बिहार), पिन कोड—841311	सारण	376	पिछड़ा वर्ग की महिला—(06)
8	श्री सुबोध कुमार पिता—श्री रघुनाथ महतो, रामबाग रोड, ट्रेनिंग स्कूल के पास, थाना—मिठनपुरा, जिला— मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड—842001	मुजफ्फरपुर	823	अनुसूचित जाति—(02)
9	श्री गौतम कुमार पिता—श्री कमलेश्वरी प्रसाद रजक, ग्राम—मालडीह, पो०—करंजा, भाया—खेसर, थाना—शंभूगंज, जिला—बांका (बिहार), पिन कोड—813207	बांका	927	अनुसूचित जाति—(02)

(क) समर्पित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होने की स्थिति में सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द करने के अतिरिक्त आवश्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी।

(ख) औपबधिक रूप से नियुक्त जिला समादेष्टा (परीक्ष्यमान) को निदेश दिया जाता है कि वे योगदान देने के समय हाल का पासपोर्ट साइज का दो अदद फोटो/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र एवं चल-अचल संपत्ति विवरण के साथ पुलिस महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छज्जुबाग, पटना को 15 दिनों के अंदर अपना योगदान अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे एवं उसकी सूचना विभाग को भी देंगे।

(ग) पुलिस महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना से अनुरोध है कि नवनिर्भुक्त जिला समादेष्टा से कंडिका (ख) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरांत उनका योगदान स्वीकार करेंगे एवं उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उनके प्रशिक्षण हेतु अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

26 दिसम्बर 2013

सं० 6/सं०-4-01/2012-4588/(वा०कर)-बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी (9,000-34,800+ग्रेड पे 5,400 रु०) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4
1	श्री नन्द कुमार सिन्हा	पटना उत्तरी अंचल	31.12.2005
2	श्री हरेन्द्र कुमार मांझी	समेकित जलालपुर जॉच चौकी	01.12.2012

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

20 दिसम्बर 2013

सं० 6/प्रो०-06-03/95(खंड-3)-4579,वा०-कर—बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के श्री विनोद कुमार दुदानी, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया (वेतनमान् 37,400-67,000+ग्रेड पे 8,700 रु०) को दिनांक 22.12.2013 के प्रभाव से वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (वेतनमान् 37,400-67,000+ग्रेड पे 8,900 रु०) कोटि में प्रोन्नति देते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. श्री दुदानी दिनांक 22.12.2013 के प्रभाव से अपने पूर्व के पद से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालिक रूप से सौंप देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

10 दिसम्बर 2013

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4441/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री तपन कुमार चक्रवर्ती को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4442/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4443/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री रवीन्द्र सिंह को अगले आदेश तक सदस्य, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4444/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री संतोष कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4445/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री कृष्णा नन्द राय को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प्रो०-34-03/2013-4446/वा०कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री अरूण कुमार वर्मा को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पद स्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. क्षेत्रीय कार्यालयों से जो पदाधिकारी अपर आयुक्त के पद पर योगदान दे रहे हैं, वे अपने पूर्व के पद से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालिक रूप से सौंप देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० क्रि०मिस०सं०-14322/2009/6891

निगरानी विभाग

संकल्प

27 दिसम्बर 2013

विषय :- बिहार राज्य विद्युत पर्षद के विघटन के बाद बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी एवं इसके अनुषंगी कंपनियाँ गठित होने के फलस्वरूप निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग, निगरानी विभाग को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में समाहित करने के संबंध में।

विद्युत ऊर्जा की चोरी और विद्युत पर्षद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण पर निगरानी रखने तथा एतद् संबंधी आम जनता से प्राप्त शिकायत पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-1366 दिनांक 06.03.1992 एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक-1959 दिनांक 02.07.1992 से पुनर्गठित कर विद्युत निगरानी कोषांग की स्थापना की गयी थी।

2. विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के तहत बिहार राज्य विद्युत पर्षद के अस्तित्व को समाप्त कर इसके स्थान पर भारतीय कंपनी एक्ट के तहत पाँच नयी कंपनियाँ यथा—बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि०, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि०, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि०, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के गठन के बाद पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत पर्षद में कार्यरत निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग, निगरानी विभाग की भूमिका परिभाषित कर इसे सुदृढ़ एवं पुनर्गठित करने का प्रस्ताव निगरानी विभाग के विचाराधीन था। इसी क्रम में अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना ने निगरानी विभाग को सूचित किया कि कंपनियों के गठन के पश्चात् निगरानी विभाग से संबंधित कार्य कंपनी द्वारा ही किया जाना है एवं वर्तमान में सभी पाँच कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं एवं विद्युत ऊर्जा चोरी एवं भ्रष्टाचार मामलों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर रही हैं। जनता से विद्युत संबंधी शिकायत पत्र भी कंपनियों को सीधे प्राप्त हो रहे हैं जिस पर नवगठित कंपनियों द्वारा स्वयं प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसके कारण विद्युत निगरानी कोषांग में काम कम रह गया है। अतः बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० द्वारा अपने निदेशक मंडल की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त निगरानी विद्युत कोषांग को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया था।

3. सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा भी विद्युत भवन परिसर में अवस्थित निगरानी विभाग के विद्युत पर्षद कोषांग के कार्यालय को समाप्त करने के संबंध में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए कार्यालय समाप्त करने का अनुरोध किया गया था।

4. उक्त पृष्ठभूमि में सभी पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि बदली हुई परिस्थिति में निगरानी विभाग का विद्युत पर्षद कोषांग को वर्तमान स्वरूप में बनाये रखने का कोई औचित्य एवं आवश्यकता नहीं रह गया है।

5. अतः राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि :-

- (क) निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यरत विद्युत निगरानी कोषांग को विघटित करते हुए कोषांग में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समस्त स्वीकृत पदों सहित एवं साज-सज्जा के साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीन समाहित कर दिया जाए।
- (ख) बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी, विद्युत अधिनियम 2003 तथा भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के अंतर्गत निगरानी तंत्र/व्यवस्था गठित करने की कार्रवाई करें जो बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी के नियंत्रणाधीन में कार्य करेगी।
- (ग) राज्य के अन्य लोक उपक्रमों/संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत निगरानी विभाग जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करती है उसी प्रकार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटित होने के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत गठित पांच सरकारी कंपनी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश प्रसाद, अपर सचिव।

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2013

सं० नि० वि० स्था०-139/2013/6864—राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेन्स” नीति अपनायी गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त 8 (आठ) पद के विरुद्ध सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. इन 8 (आठ) पुलिस उपाधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्नवत् है :-

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना। | सदस्य |
| 3. पुलिस महानिरीक्षक,
विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना। | सदस्य |
| 4. अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना। | सदस्य |
| 5. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगरानी विभाग के लिए मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एक पदाधिकारी | सदस्य |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश प्रसाद, अपर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

26 दिसम्बर 2013

सं० 6/सं०-4-01/2012-4594/(वा०कर)-विभागीय अधिसूचना संख्या 4588 दिनांक 26.12.2013 में टंकण भूलवश वाणिज्य-कर पदाधिकारी का वेतनमान 9,000-34,800+ग्रेड पे-5,400 रु० टंकित हो गया है। जिसे (9,300-34,800+ग्रेड पे 5,400 रु०) पढ़ा जाय।

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

30 दिसम्बर 2013

सं० सि० को०- 01/2001-पार्ट II-900—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन सारण मुख्य नहर से निस्त निम्नलिखित वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2013-14 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति बन्द रखना अपरिहार्य हो गया है।

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	बंदी हेतु नहर का नाम	अभ्युक्ति
1	सारण नहर प्रमंडल, भोरे	परसाही वितरणी के वि०दू० 59.50 से 70.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	
2	सारण नहर प्रमंडल, मैरवा	गुठनी वितरणी के वि०दू० 25.00 से 48.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	बंदी हेतु नहर का नाम	अभ्युक्ति
3	सारण नहर प्रमंडल, मैरवा	चांदपुर वितरणी एवं रघुनाथपुर उप वितरणी एवं इनके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	
4	सारण नहर प्रमंडल, सिवान	मठिया उप वितरणी एवं बगौरा उप वितरणी तथा इनसे निसृत वितरण प्रणाली	
5	सारण नहर प्रमंडल, एकमा	रामनगर उप वितरणी एवं शेखपुरा उप वितरणी तथा इनसे निसृत वितरण प्रणाली	
6	सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज	गोपालगंज वितरणी के वि०दू० 47.50 से 105.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	
7	सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज	धेवर उप वितरणी एवं इससे निसृत वितरण प्रणाली	
8	सारण नहर प्रमंडल, छपरा	सलेमपुर वितरणी के वि०दू० 31.00 से 58.35 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	
9	सारण नहर प्रमंडल, मधौरा	मधौरा शाखा नहर के वि०दू० 138.00 से 180.90 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली	

अतः संबंधित नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि आगामी रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,

सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 2192—शपथ पत्र संख्या 1615, दिनांक 11.09.2013 के अनुसार श्री अजय कुमार, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर की पुत्री यशश्री अब यशश्री कनन के नाम से जानी जाएगी।

अजय कुमार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2013

सं० कौन/भी0-119/2010-158—स्व0 रामलखन दास सेवानिवृत्त, वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन अंचल प्रभारी मधुबनी अंचल, मधुबनी के पदस्थापनकाल में सर्वश्री सोनेलाल रामचन्द्र साह, मखाना मर्चेन्ट, गाँधी चौक, मधुबनी को लाभ पहुँचाने का कुत्सित कार्य करने एवं अनुचित लाभ के उद्देश्य से सरकारी कार्य करने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 200, दिनांक 04.11.11 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही थी, इसी बीच दिनांक 14.05.2013 को श्री दास का असामयिक निधन हो गया। अतएव दंड संसूचन के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श/मंतव्य है कि “ऐसी परिस्थिति में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कोई दंडादेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा।” अतः मामले की सम्यक् समीक्षोपरांत स्व0 दास को आरोप मुक्त करते हुए किसी प्रकार का दंड संसूचित नहीं करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>